



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 25-03-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-03-25 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-03-26	2022-03-27	2022-03-28	2022-03-29	2022-03-30
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0
न्यूनतम तापमान(से.)	9.0	10.0	10.0	11.0	12.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	45	45	45
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	310	310	300	300	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 23.0 से 27.0 व 9.0 से 12.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0-9.0 किमी/घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 30 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः सामान्य से अधिक व सामान्य रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। पुष्पन के समय बगीचों की जुताई न करें तथा आवश्यकतानुसार बागों की सिंचाई करें। पुष्पन के समय कोई भी कीटनाशी दवा का प्रयोग ना करें। क्योंकि इससे परागण में भाग लेने वाली मक्खियों के मरने का खतरा होता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, मौसम शुष्क रहेगा। सभी फसल व सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्के सिंचाई करने की सलाह दी जाती है।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	फ़सल में पुष्पन अवस्था में सिंचाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें। असिंचित फसल में पुष्पन अवस्था से पूर्व यूरिया के 2 प्रतिशत घोल 20 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी का पर्णिय छिड़काव करना लाभप्रद सिद्ध होगा।
फील्ड पी	फलियों में दाना बनते समय आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
सरसों	सरसों की फसल की कटाई एवं मड़ाई करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	घाटी क्षेत्रों में यदि टमाटर की पौध तैयार हो गई हो तो संस्तुति के अनुसार पौध रोपण करे। मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों, में टमाटर के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
शिमला मिर्च	घाटी क्षेत्रों में यदि शिमला मिर्च की पौध तैयार हो गई हो तो संस्तुति के अनुसार पौध रोपण करे। मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में, शिमला मिर्च के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
बैंगन	मध्यम ऊँचे पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में, बैंगन के बीज की बुवाई पॉलीहाउस या पॉलीनेट के भीतर करे।
सेम की फली	सिंचित घाटी क्षेत्रों में सब्जी फ़ासबीन किस्म अर्का कोमल या कन्टेण्डर की बुवाई करे।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	गर्भवती पशुओं में प्यूरपरल बुखार को रोकने के लिए, प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण को पशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने हेतु आहार के रूप में दें। इस समय पशुओं में बॉझपन और जोहन की बीमारी होने की अधिक संभावना है। इस स्थिति में पशुओं का तत्काल इलाज करवाए। भैंसों के बछड़े जिनकी उम्र 2 माह के आस-पास हो गई है, उनको कृमिनाशक दवा दें।
गाय	गाय के बछड़े जिनकी उम्र 2 माह के आस-पास हो गई है, उनको कृमिनाशक दवा दें।